

क्या आप ऐसा व्यक्ति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए आवेदन करने से इंकार कर देते हैं?


क्या आप ऐसा व्यक्ति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए आवेदन करने से इंकार कर देते हैं?

क्या आप ऐसा व्यक्ति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए आवेदन करने से इंकार कर देते हैं?

क्या आप ऐसा व्यक्ति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए आवेदन करने से इंकार कर देते हैं?

क्या आप ऐसा व्यक्ति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए आवेदन करने से इंकार कर देते हैं?

1. क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं?



चैक गणराज्य में शरण चाहने वालों के लिए जानकारी पत्रक

5. आपकी स्वागत केन्द्र पर कितने समय तक ठहरना होगा?

स्वागत केन्द्र, एक बंद परिसर है और इसलिए वहाँ बिताया गया समय अधिकतम सांख्यिक अवधि 120 दिनों की है।

4. इसके बाद क्या होगा?

आपको शरण चाहने वालों के लिए निर्धारित स्वागत केन्द्र पर ले जाया जाएगा जहाँ आप शरण की प्रक्रिया के प्रथम चरणों को पूरा कर सकें, जैसे परीक्षा और चिकित्सा जांच आदि।

6. स्वागत केन्द्र से आपके जाने के बाद क्या होगा?

शरण चाहने वालों के लिए दो विकल्प हैं। या तो वे निजी व्यवस्था में रहने का निर्णय करें, या उन्हें खले आवेदन केन्द्रों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये सुविधाएँ उन शरण चाहने वालों के लिए हैं जिनके पास, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण से संबंधित निर्णय के लागू होने तक अपने जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं है।



2. क्या होगा यदि आप चैक गणराज्य में अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए आवेदन करने से इंकार कर देते हैं?

आपको शरणार्थी नहीं माना जाएगा।

3. सबसे पहले क्या काम करना चाहिए?

आदर्श रूप से, आपको चैक गणराज्य में सीमा पर अपने प्रवेश के समय तत्काल बताना चाहिए कि आप अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए आवेदन करना चाहते हैं (इसके लिए आवेदन पत्र दें)।

आप ऐसा जितनी जल्दी हो सके जास्तावका यू बीआरएन पर स्वागत केन्द्र या पुलिस स्थानीय महानिदेशालयों में विदेशी पुलिस निरीक्षणालय में ऐसा कर सकते हैं।

सरल शब्दों में बताएं कि आप शरणार्थी हैं और शरण का अनुरोध करें या आपको अपने मूल देश वापस जाने में डर लगता है या आपकी जान खतरे में है या आपके देश में आप पर अत्याचार किया जा सकता है।

7. भ्रष्टाचार पर कौन निर्णय करेगा?

चैक गणराज्य में अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए सभी आवेदनों के संबंध में निर्णय राष्ट्र मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ इंटरियर), शरणार्थी विभाग द्वारा और प्रवासन नीति के अनुसार लिए जाते हैं।

चैक गणराज्य

उपयोगी संपर्क

शरणार्थियों की सहायता का संगठन (ओपीयू) Kovářská 4, 190 00 Praha 9
टेलीफोन: +420 730 158 779, ईमेल: opu@opu.cz, वेबसाइट: www.opu.cz

शरणार्थियों की सहायता का संगठन (ओपीयू) Leitnerova 9, 602 00 Brno
टेलीफोन: +420 731 928 388, ईमेल: opu.brno@opu.cz

शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग (यूनएचसीआर)
Železná 24, 110 00 Praha 1




8. शरण की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है?

इसके कुछ समय बाद, आपसे एक आवेदन भरने, प्रारम्भिक जानकारी और उन कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि आपको संरक्षा क्यों चाहिए। आपसे तथ्यों का उल्लेख करने का अनुरोध किया जाएगा जिनके आधार पर आपने शरण के लिए अनुरोध करने का फैसला किया है, और आपको अपनी यात्रा का ब्यौरा देने के लिए कहा जा सकता है।

अपने पहचान दस्तावेजों और आपके पास उपलब्ध समस्त सहायक दस्तावेजों को दिखाना न भूलें।

आपको अपनी मातृ भाषा या अन्य भाषा जिसमें आप संचार कर सकते हैं, में दुभाषिण की सेवाएं प्राप्त करने का हक है।



11. क्या आप कानूनी सहायता के हकदार हैं?

जी हां! गृह मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ इन्टिरियर) के अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह आपको यह सूचित करे कि आप किसी भी समय विधि काउंसिल या किसी अन्य व्यक्ति की कानूनी सहायता का अनुरोध कर सकते हैं, जो कानूनी सहायता की व्यवस्था या शरणार्थियों की संरक्षा के कार्य से जुड़ा है। आप शरणार्थी उच्चायोग कार्यालय से भी सहायता का अनुरोध कर सकते हैं।

9. आपके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के बाद क्या होगा?


कभी कभी जब आप आवेदन जमा करवा देते हैं, तो उसके बाद आपको शरणार्थी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यह शरण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए जो कुछ भी ब्यौरा आपको याद है, उसका उल्लेख करने के लिए स्वयं को तैयार कर लें।

इंटरव्यू का संचालन गृह मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ इन्टिरियर) के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है और यह आपके लिए अपने मामले से जुड़ी पर्याप्त जानकारी और तथ्यों को पेश करने का अवसर होता है।

गृह मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ इन्टिरियर) के कर्मचारियों द्वारा इस बात की जांच की जाती है कि आपके देश में क्या हो रहा है, और वे आपके द्वारा प्रदान किए गए डेटा के संबंध में अधिक विस्तृत प्रश्न पूछेंगे। हर उस बात का उल्लेख करें जो आपके मामले के लिए महत्वपूर्ण है, आपने अपने देश को क्यों छोड़ा और आप पर कैसे और किसने जुल्म किए थे।

आपको अपनी मातृ भाषा या अन्य भाषा जिसमें आप संचार कर सकते हैं, में दुभाषिण की सेवाएं प्राप्त करने का हक है।

निर्णय प्रदान करने के लिए सांविधिक अवधि 6 महीनों की है। कुछ मामलों में इसे बढ़ाया जा सकता है, जैसे मामले की जटिलता या निर्णयकर्ता के साथ सहयोग करने में विफल रहना।



12. क्या होगा यदि अंतर्राष्ट्रीय संरक्षा से संबंधित आपके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है?

क्या अंतर्राष्ट्रीय संरक्षा के संबंध में प्रथम निर्णय के संबंध में अपील की जा सकती है।

आप प्रशासनिक न्यायालय के समक्ष प्रथम निर्णय के संबंध में कितने समय में चुनौती दे सकते हैं, इस बारे में समय से संबंधित निर्देश निर्णय के पाठ में दिए गए हैं।

यदि आप अंतर्राष्ट्रीय संरक्षा से संबंधित निर्णय के बारे में अपील नहीं करना चाहते हैं, तो चैंक गणराज्य को छोड़कर जाने के लिए आपको निकास वीजा जारी किया जाएगा।



10. क्या आपको निर्भय होकर जानकारी प्रदान करनी चाहिए?

आप निर्भयता से अपनी बात कर सकते हैं क्योंकि आपके व्यक्तिगत डेटा सहित जो कुछ आप कहते हैं, उसे सख्ती से गोपनीय रखा जाता है। डेटा को आपके मूल देश या इस प्रक्रिया में भागीदारी न करने वाले अन्य प्राधिकरणों को अग्रेषित करने पर पाबंदी है।

यह महत्वपूर्ण है कि आप सच बताएं, अपने वक्तव्य में संभावित अस्पष्टता या विसंगतियों को स्पष्ट करें और जितना अधिक विस्तार से हो सके, इस बात को स्पष्ट करें कि आपने देश को क्यों छोड़ा।

13. क्या होगा यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय संरक्षा प्रदान कर दी जाती है?

यदि आपको शरण या सहायक संरक्षा प्रदान कर दी जाती है, तो आप राज्य एकीकरण कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से कुछ समय के लिए एकीकरण सुविधाओं में वहीनीय आवास और चैंक भाषा की कुछ कक्षाओं में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाती है।

यदि आपको शरण प्रदान कर दी जाती है, तो आप चैंक गणराज्य में स्थायी निवास परमिट प्राप्त करेंगे और आप चैंक गणराज्य के नागरिकों की तरह ही अधिकार और दायित्व प्राप्त करेंगे, जिनमें मतदान और सेना में भर्ती शामिल नहीं हैं।

यदि आपको सहायक संरक्षा प्रदान की जाती है, तो आपको उस अवधि के लिए चैंक गणराज्य में दीर्घकालिक निवास परमिट दिया जाएगा जिस अवधि के लिए आपको सहायक संरक्षा प्रदान की गई है, जो आमतौर पर 1 साल की होती है।

इसका अर्थ है कि श्रम कार्यालय में आपका पंजीकरण हो जाता है, तो शैक्षणिक कार्यक्रमों जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा में नामांकन करवाने में सक्षम होंगे, आप कारोबार कर सकते हैं और आमतौर पर कानूनी गतिविधियां कर सकते हैं। दूसरी ओर, आप चैंक गणराज्य के सभी नागरिकों की तरह कानूनी दायित्वों को पूरा करेंगे, जैसे कर, स्वास्थ्य बीमा का भुगतान करना और गैर कानूनी आचरण के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करना।